



# नगर पालिक निगम भिलाई



मासिक पत्रिका  
मार्च संस्करण 2017



नगर पालिक निगम भिलाई





श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर

## संदेश

शहर में निवासरत सभी नागरिकों को शुभकामना, मैं अपनी पूरी क्षमता व लगन के साथ प्रयासरत हूं कि अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। हम अपने इस लौह नगर को स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क, व्यवस्थित बाजार, पार्क, उद्यान, खेल-कूद, शिक्षा, आपसी प्रेम भाईचारा, सांस्कृतिक महोत्सव, आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनायेंगे। हम सब लोग मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छ भिलाई सुन्दर भिलाई व स्वस्थ भिलाई बना सकते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव  
महापौर  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई



## बजट सुझाव हेतु विचार विमर्श

भिलाईनगर। महापौर देवेन्द्र यादव निगम में प्रस्तुत होने वाले आगामी बजट में वास्तविक प्रावधान के लिए बुधवार से आम जनता, सामाजिक/व्यापारिक संगठन, महिला समुह, युवावर्ग, पार्षद, जनप्रतिनिधियों से उनके वार्ड एवं क्षेत्र के आवश्यकता के अनुरूप बजट सुझाव के लिए जोन 01 नेहरु नगर कार्यालय में प्रातः 11 से 01 बजे दोपहर तक उपस्थित रहकर प्राप्त सुझावों पर विचार किये। महापौर ने जोन कार्यालय में बजट सुझाव हेतु उपस्थित जोन में शामिल सभी वार्डों के पार्षद एवं एल्डरमेन से बैठक प्रारम्भ कर उनके विचार जानें। साथ ही बजट सुझाव हेतु उपस्थित व्यापारिक व सामाजिक संगठन, महिला समुह, के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनसे सुझाव लिए। जिसमें आगामी बजट हेतु मुख्य रूप से सुझाव जो प्राप्त किये गये उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हेतु हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन निरन्तर संचालन, जर्जर एवं बंद पड़े भवनों संधारण, मांगलिक कार्य हेतु सुव्यवस्थित वातानुकूलित भवन व लान का निर्माण, साप्ताहिक बाजारों को सुव्यवस्थित कर दुकान एवं चबुतरा निर्माण, सार्वजनिक शौचालय तथा प्रसाधन का निर्माण, शौचालय को डिसमेंटल कर नये शौचालय का निर्माण, सुपेला रेलवे फाटक से पावर हाउस रेलवे स्टेशन तक पटरी के समानांतर सड़क निर्माण, रामनगर, शितला तालाब सहित जोन के समस्त तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं गहरीकरण कर संरक्षित किया जाये।



नगर पालिक निगम भिलाई



## लोक सुराज अभियान तीन दिवसीय लक्ष्य समाधान का शिविर

भिलाईनगर/ लोक सुराज अभियान तीन दिवसीय लक्ष्य समाधान का शिविर में प्राप्त आवेदनों का 17 मार्च के पूर्व निगम द्वारा जांच कर घर-घर सर्वे कर जिला स्तर पर सूची प्रेषित किया जायेगा। शिविर में मकान आबंटन तथा राशन के लिए सर्वाधिक आवेदन जमा हुए हैं। लोक सुराज अभियान के अंतर्गत 26,27,28 फरवरी को मुख्य कार्यालय सहित जोन कार्यालयों में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों द्वारा भारी उत्साह के साथ अपनी भागीदारी निभाकर मांग एवं शिकायत के रूप में कुल 14,995 आवेदन जमा हुए हैं। आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे निगम सभागार में आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि शिविर में सर्वाधिक आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आबंटित करने तथा राशन कार्ड बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं। शिकायत एवं मांग के आवेदनों का जोनवार तथा वार्डवार सूची तैयार कर आगामी 17 मार्च तक निगम स्तर पर जांच कर जिला सीमित को भेजा जाना है। इसलिए प्राप्त आवेदनों पर घर-घर सर्वे करवाकर आधार कार्ड, वोटर आईडी प्राप्त करें। मकान हेतु प्राप्त आवेदनों का स्थल अवलोकन कर आवेदक से भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की जांच कर छायाप्रति जमा करा लें। आवेदनों का परीक्षण उपरान्त स्कैन करके आनलाईन अपलोड किया जाना है। इसके पूर्व ही सम्पूर्ण जांच परीक्षण वार्ड एवं जोन स्तर पर होना आवश्यक है।



नगर पालिक निगम भिलाई



## बीएसपी एवं रिसाली क्षेत्र में बजट बैठक महापौर देवेन्द्र यादव ने ली

भिलाईनगर/ वार्ड की आवश्यकता के अनुसार नगर निगम भिलाई का बजट बनाया जा रहा है उसी के तहत महापौर देवेन्द्र यादव, जोन अध्यक्ष, क्षेत्र के पार्षद, जनप्रतिनिधि, व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बजट सुझाव बैठक आयोजित की। क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। सभी पार्षदों द्वारा मांग की गई की पानी, सड़क, लाईट, सफाई, पानी निर्माण आदि कार्यों को प्राथमिकता के साथ किया जावे। बैठक के दौरान जोन क्रमांक 05 के अध्यक्ष सुर्यकान्त सिन्हा, जोन 06 के अध्यक्ष भूपेश ठाकुर, साकेत चन्द्राकर, पार्षद लक्ष्मीपति राजू, सुभद्रा सिंह, राजेश चौधरी, कु. दिनशा तुमाने, श्रीमती ललिता रेड्डी, राजेन्द्र रजक, रंग बहादुर सिंह, नरेश कोठारी, केशव बंछोर, मोनिका चन्द्राकर, राजू मंडावी, ममता बाग, भैरव सिंह सोनवानी, सत्येन्द्र बंजारे, एल्डरमेन श्रीमती रीना नैय्यर, निगम जोन क्रमांक 05 के जोन आयुक्त प्रशान्त शुक्ला, जोन क्रमांक 06 के जोन आयुक्त संजय बागड़े, अभियंता रवि सिन्हा, एमपी देवांगन, सहायक अभियंता प्रिया खेबर, एवं निगम के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। अन्य जोन के समान बीएसपी से एनओसी लेकर सेक्टर क्षेत्र में कार्य करवाया जाये।



नगर पालिक निगम भिलाई



## भिलाई नगर निगम में महिला दिवस मनाया गया

भिलाईनगर/ राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जैसे संवैधानिक पदों पर आज महिलाएं देश के विकास के लिए निर्णय ले रहीं हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर स्थानों पर महिला संगठन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहें हैं अब महिलाएं यह कहने में सक्षम है कि आप लोग कार्य करें हम आप के कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और ऐसा कतई नहीं सोचियें कि आप के पीछे कोई नहीं है हम आप के साथ खड़े हैं और आपके हर मुसीबत में साथ है। उक्त उद्गार रमशीला साहू मंत्री महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण, छ.ग. शासन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई के प्रांगण में आयोजित महिला सम्मान समारोह में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किया उन्होने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं का सम्मान के साथ-साथ उनका आत्मबल बढ़ता है। महापौर देवेन्द्र यादव ने कहा कि यह पहला अवसर है जब मुझे मेरी माँ के सामने मंच पर कुछ बोलने का अवसर मिला है महिलाओं के उत्थान के लिए नगर निगम द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जो महिलाओं को सबल बनाने में कारगर सिद्ध हो रहा है। महिला दिवस की मैं सभी को बधाई देता हूं। पूर्व महापौर निर्मला यादव ने अपने उद्बोधन में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त किया कि 8 मार्च को निगम भिलाई मेरे साथ-साथ समाज की महिलाओं को एक जगह एकत्र कर उनके कार्यों को सराहा एवं सम्मान किया।



नगर पालिक निगम भिलाई



चेम्बर्स आफ कामर्स के व्यापारी प्रतिनिधियों ने बजट पर चर्चा करते हुए भिलाईनगर/चेम्बर्स आफ कामर्स के व्यापारी प्रतिनिधियों ने बजट पर चर्चा करते हुए युवा संघ के अध्यक्ष अजय भसीन ने महापौर देवेन्द्र यादव से सम्पत्तिकर, युजर्स चार्ज, गुमास्ता लायसेंस, ट्रेड लायसेंस में शिथिलता देने के साथ दरों में कमी करने का अनुरोध किया। निगम के सम्पत्तिकर, भूभाटक, दुकान किराया, प्रब्याजी की राशि व्यापारी नियमित रूप से प्रति वर्ष देंगे साथ ही शहर के व्यापारियों से निगम की देयराशि मार्च तक जमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। महापौर देवेन्द्र यादव द्वारा जोनवार लिये बजट सुझाव में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ निगम की वास्तविक बजट प्रस्तुत करने के लिए महापौर को अनेक सुझाव दिये हैं इसी कड़ी में गुरुवार को चेम्बर्स आफ कामर्स के प्रतिनिधि जवाहर मार्केट लिंक रोड, एप्रोच रोड, सरकुलर मार्केट के व्यापारियों ने महापौर से उनके कक्ष में भेंट कर उन्हें सुझाव के साथ व्यापारिक समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने इन मार्केट क्षेत्रों में पार्किंग को एक गंभीर समस्या बताते हुए लिंक रोड, एप्रोच रोड में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था का अनुरोध किया। जिसपर महापौर ने व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि पुराना रोजगार कार्यालय में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के साथ ही शीतला मार्केट में भी पार्किंग जोन बनाने के लिए महापौर एवं व्यापारी प्रतिनिधि भिलाई इस्पात संयंत्र के सी.ई.ओ. से चर्चा कर स्थल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मांग रखेंगे।



नगर पालिक निगम भिलाई



## वार्ड – 24 में स्वच्छता जागरूकता अभियान

भिलाईनगर/छ0ग0 शासन के केबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि भिलाई में स्वच्छता के क्षेत्र में अपने आप में अभूत पूर्व कार्य हुए हैं। खुले में शौच की रोक के लिए निगरानी दल के साथ-साथ 15 हजार निजी शौचालय का निर्माण इस दिशा में सार्थक कदम है। मंत्री श्री पाण्डेय रविवार को वार्ड 24 में स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत वार्ड में भ्रमण कर दुर्गा शासकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि विगत 28 सप्ताह से भिलाई के विभिन्न वार्डों में मेरे द्वारा प्रति रविवार को स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने भ्रमण किया जा रहा है। सभा को सभापति पी. श्यामसुंदर राव, आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा एवं पार्षद छोटेलाल चौधरी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सभापति पी. श्यामसुंदर राव, जोन अध्यक्ष परमजीत सिंह लाडी, पार्षद रंग बहादुर, मार्तण्ड सिंह मनहर, भ्रमण के दौरान लोगों ने मंत्री को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। जिसपर उन्होंने अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिये। पार्षद निधि के सहयोग से ट्रायसाईकिल तथा वार्ड की महिलाओं को मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 200 नग इस्टबीन वितरण किये जाने की शुरुआत किया गया। कार्यक्रम में आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा, जनसम्पर्क अधिकारी अशोक पहाड़िया, जोन आयुक्त टी.के रणदिवे, रवि सिन्हा, वेशराम सिन्हा, परमेश्वर चन्द्राकर, व्ही के सेमुअल, रामायण सिंह, शरद दुबे, तेजबहादुर सिंह, रविन्द्र सिंह, अनीता सिंह, संतोष, रामअधार, सुशांत केशरवानी, अमित चौधरी, गोपाल गुप्ता, सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।



नगर पालिक निगम भिलाई



नगर निगम भिलाई के 50 में 50 में 48 प्रस्ताव को मिली महापौर परिषद की स्वीकृति भिलाईनगर/ आज महापौर परिषद् की बैठक निर्धारित समयानुसार महापौर देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में समस्त MIC सदस्यों की उपस्थिति में प्रारम्भ हुवी, निगम आयुक्त के एल चौहान के पद ग्रहण की प्रथम बैठक समस्त सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित रहे। शासन से स्वीकृति के पश्चात ही प्राकलन तैयार करने कहा। शासन की योजना है कि राजस्व संपत्ति कर, जल कर, यूजर चार्ज समेकित कर विज्ञापन कर वसूले जाने वाले करों की वसूली प्राइवेट संस्थाओं से करवाये जाने के संमन्ध में महापौर परिषद् ने विचारार्थ कहा कि सर्वप्रथम एजेंसी को आमंत्रित कर उसके कार्यस्वरूप को जाना जाए उसकी प्रस्तुति को जाना जाए की वह किस प्रकार वसूली करेगा, उसकी प्रमाणिकता क्या होगी ? वैशालीनगर जोन में नाली, सड़क, बाजार, सीवरेज सफाई एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गैंग की कार्यावधि वृद्धि, नेहरूनगर जोन स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गैंग में वृद्धि, कचरा संग्रहण परिवहन कार्य किराए पर वाहन उपलब्धता, इसी प्रकार 77 एम् एल डी जल संयंत्र में कार्य सञ्चालन हेतु कंप्यूटर ऑपरेटर, एवं मोरिद इंटकवेल के संचालन संधारण हेतु कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने बाबत प्रस्ताव को सलाहकार समिति के माध्यम से लाए जाने को कहा। बैठक के दौरान महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त, के एल चौहान, समस्त MIC सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।



नगर पालिक निगम भिलाई



## आयुक्त के द्वारा स्वच्छता समीक्षा बैठक की

भिलाईनगर/ शहर की सफाई स्वच्छता की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त के एस चौहान ने आज निगम के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि सुबह 6.00 बजे पहले वार्ड सुपरवाइजर सफाई दरोगा अपनी फोटो एवं ठेकेदार की फोटो एक में अपलोड होगा उसके बाद कामगारों की उपस्थिति फोटो अपलोड होगी। आयुक्त श्री चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि वह कर्मचारी कामगार उपस्थित रहते हैं सफाई दरोगा ठेकेदार नहीं आते हैं स्वच्छता का दायित्व ठेकेदार का होना चाहिए उसमें स्वच्छता साफ – सफाई का ठेका लिया है वह तो घर में सोया रहता है निगम अधिकारी सुबह से वार्ड में घूम – घूमकर सफाई करने व शिकायतों को दूर करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठेकेदार की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है आयुक्त ने आज ही मोबाइल एप में ठेकेदार एवं स्वच्छता दरोगा की फोटो अपलोड कर 1 अप्रैल से सुबह 6.00 बजे उपस्थिति प्रारंभ करे।



नगर पालिक निगम भिलाई



आयुक्त के आदेश के बाद ठेकेदार एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है क्योंकि उन्होंने ठेकेदार की अनुपस्थिति होने पर सेवा शुल्क की राशि में कटौती करने के निर्देश दिए हैं आयुक्त श्री चौहान ने स्वास्थ्य अधिकारी आयोग यादव स्वच्छता निरीक्षक यशवंत चतुर्वेदी को 28 मार्च से 29 मार्च को सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन करने एवं कार्य नहीं करने के पश्चात ठेकेदार को किसी प्रकार की नोटिस एवं कार्यवाही न करने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी करने करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी दी है 1 अप्रैल को सभी कर्मचारियों की उपस्थिति मोबाइल ऐप से होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

### Editorial Board

श्री कुमार लाल चौहान  
आयुक्त (आई.ए.एस.)  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

### Contact & Address

श्री अशोक पहाड़िया  
जनसंपर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम  
भिलाई



नगर पालिक निगम भिलाई

